



1- 02 किलो 200 ग्राम गांजा सहित एक आरोपी गिरफ्तार, थाना बिलारी, मुरादाबाद:-

अवगत कराना है कि दिनांक 16.07.2022 को उ0नि0 श्री कुलदीप सिंह तोमर, थाना बिलारी द्वारा मह हमराही पुलिस बल के आरोपी इब्राहिम अंसारी पुत्र मोहम्मद नन्हे निवासी रोजो वाली मस्जिद रुस्तम नगर सहसपुर थाना बिलारी, मुरादाबाद को मय 02 किलो 200 ग्राम गांजा के गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना बिलारी पर मु0अ0सं0 310/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

2- जिला बदर अभियुक्त अवैध चाकू सहित गिरफ्तार, थाना मूँढापाण्डे, मुरादाबाद:-

अवगत कराना है कि दिनांक 16.07.2022 को उ0नि0 श्री मनवीर सिंह थाना मूँढापाण्डे द्वारा मय हमराही पुलिस बल के जिला बदर अभियुक्त नवाब अली पुत्र नामे अली निवासी ग्राम सिरसखेड़ा थाना मूँढापाण्डे मुरादाबाद को अवैध चाकू के गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना मूँढापाण्डे पर मु0अ0सं0 189/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 190/2022 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा गर्दी नियंत्रण अधि0 पंजीकृत किया गये।

3- नावालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का अभियुक्त गिरफ्तार, थाना भोजपुर, मुरादाबाद:-

अवगत कराना है कि वादिनी निवासी थाना भोजपुर क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादिनी की पुत्री को भगा ले जाना व शिकायत करने पर गाली गलोच कर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में दी तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0 190/22 धारा 363/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त संबंध में दौराने विवेचनात्मक कार्यवाही लडकी को बरामद किया गया एवं साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट की बढोतरी की गयी। आज दिनांक 17.07.2022 को उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना भोजपुर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के आरोपी सुहेब पुत्र नवाब अली निवासी ग्राम बाजपुर थाना बाजपुर जनपद ऊधमसिंहनगर उत्तराखण्ड को गिरफ्तार किया गया।